



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 507) पटना, मंगलवार, 25 सितम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

21 सितम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० **9533**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि उक्त सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष के 1 (एक), उपाध्यक्ष के एक एवं निदेशक के आठ पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है और निदेशक के पदों 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2) कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक पद के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 16.10.2012 की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 9453 दिनांक 29.08.2012 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 31.07.2012 निर्धारित की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में सूचना दिनांक 21.09.2012 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल के
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

सूचना का प्रकाशन	-	21.09.2012 (शुक्रवार)
नामांकन की तिथि	-	06.10.2012 (शनिवार) 9 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 2 बजे तक
संवीक्षा की तिथि	-	06.10.2012 (शनिवार) 2 बजे अपराह्न से लगातार 4 बजे अपराह्न तक
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	-	06.10.2012 (शनिवार) 4 बजे अपराह्न से 6 बजे अपराह्न तक
मतदान, अगर आवश्यक हो	-	16.10.2012 (मंगलवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
मतगणना	-	16.10.2012 (मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात) / 17.10.2012 (9 बजे पूर्वाह्न से)

परिशिष्ट-2

द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना, निबंधन संख्या....., पता
.....के निदेशक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 (दस) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
उपाध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
निदेशक (पिछड़ा वर्ग-एनेक्सचर-1)	01 (आरक्षित)
निदेशक (पिछड़ा वर्ग-एनेक्सचर-2)	01 (आरक्षित)
निदेशक (सामान्य कोटि)	06 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर

(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ... बजे पूर्वाह्न से ... बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>